

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26082023-248370
SG-DL-E-26082023-248370असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 262] | दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2023/भाद्र 3, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 198 |
| No. 262] | DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2023/BHADRA 3, 1945 | [N. C. T. D. No. 198 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2023

फा. सं.-19(7)/2021/वि.स.स./स्था.शाखा/3467-73.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या-एफ 27/59-हिम (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार के दिनांक 20 मई, 1999 की अधिसूचना के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जाने वाली या लोप किये जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, विधान सभा सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में "स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)" के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : (i) इन नियमों को "स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)" भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जो अपने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
- वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव :-** इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | पदनाम | स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) |
| 2. | पदों की संख्या | 03* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर |
| 3. | वर्गीकरण | ग्रुप "ग" अराजपत्रित अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रुपये 25500-81100/-) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | गैर चयन |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | लागू नहीं। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | लागू नहीं। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | लागू नहीं। |
| 9. | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है। | लागू नहीं। |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | पदोन्नति द्वारा |

| | | |
|-----|---------------|------------|
| 11. | यदि पदोन्नति/ | पदोन्नति:- |
|-----|---------------|------------|

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो श्रेणी जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है। | वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में रुपये 19,900-63,200/- में स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो और परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टीप —जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है। वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे। बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिविक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है। | वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (1) प्रधान सचिव/सचिव (श्रम विभाग), —अध्यक्ष (2) सचिव (वि.स.स.), —सदस्य (3) उपसचिव (सेवाएं), —सदस्य टीप —विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाई करण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति/स्थायी करण समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति/स्थायी करण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | लागू नहीं। |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

मुकेश सी. शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालय प्रमुख

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2023

F. No. 19(07)/2021/LAS/Estt./3467-73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's notification dated 20th May, 1999 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **"Staff Car Driver (Grade-II)"** in the Legislative Assembly Secretariat of the Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement:-** (i) These rules may be called **"Staff Car Driver (Grade-II)"** Recruitment Rules, 2023.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix:-** The number of post, its classification and level in the Pay Matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached with these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications:-** No person;
 - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rules with respect of any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of Posts. | Classification. | Pay Level in the Pay Matrix. | Whether Selection or Non-Selection post. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Staff Car Driver (Grade-II) | 03* (2023) *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level: 4 (Rs.25500-81100/-) of the Pay Matrix | Non-Selection |

| Age limit for direct recruits. | Educational and other Qualifications required for Direct Recruits. | Whether age and Educational Qualifications Prescribed for direct recruits will apply in case Of promotes. | Period of probation, if any. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 6. | 7. | 8. | 9. |
| Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |

| Method of recruitment: Whether by direct recruit-ment or by promotion or by deputation/ absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods; | In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10. | 11. | 12. | 13. |
| By Promotion | Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Level: 2 (Rs.19900-63200/-) of the Pay Matrix with 08 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Transport Department, GNCTD. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ | Group "C" DPC (for considering promotion): 1. Principal Secretary/ Secretary(Labour): Chairman 2. Secretary (LAS) : Member 3. Dy. Secretary (Services) : Member Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee | Not Applicable. |

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

MUKESH C. SHARMA, Dy. Secy. (Admn.)/HOO